

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2015—श्रावण 16, शक 1937

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2015

अधि. क्र. 143-एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिक निगम मुरैना, जिला मुरैना के लिए आरक्षित वार्डों की सूची कलेक्टर कार्यालय द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2015 को पटल पर चरप्पा की गई है, के परिपेक्ष्य में वार्डों के आरक्षण की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) में निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	11	03 संत कबीर वार्ड 06 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 08 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 20 महात्मा ज्योतिबा फुले वार्ड 25 उत्तमपुरा वार्ड 26 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 28 इंदिरा गांधी वार्ड 29 मनोहर वार्ड 30 सरोजनी नायडू वार्ड 44 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 47 शहीद भगत सिंह वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	0	निल

(1)	(2)	(3)	(4)
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	12	01 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 05 तात्याटोपे वार्ड 07 दाउजी वार्ड 10 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 11 सुखदेव वार्ड 13 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 15 महादेव वार्ड 18 महावीर वार्ड 23 बिहारी जी वार्ड 37 गुरुनानक वार्ड 39 गोपाल वार्ड 43 राजगुरु वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	05	25 उत्तमपुरा वार्ड 26 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड 28 इंदिरा गांधी वार्ड 44 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 47 शहीद भगत सिंह वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	0	निल
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	06	01 रविन्द्र नाथ टैगोर वार्ड 05 तात्याटोपे वार्ड 11 सुखदेव वार्ड 13 डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड 23 बिहारी जी वार्ड 43 राजगुरु वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	12	04 रफी अहमद क़िदवई वार्ड 14 महाराणा प्रताप वार्ड 17 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 22 महामाया वार्ड 27 हनुमान वार्ड 31 स्वामी विवेकानंद वार्ड 34 तुलसी वार्ड 35 शंकर वार्ड 36 संजय गांधी वार्ड 38 महात्मा गांधी वार्ड 41 अटल बिहारी बाजपेयी वार्ड 42 लोकमान्य तिलक वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.